

प्रेषक,

धर्म चन्द्र पाण्डेय,

उप सचिव

उ0प्र0 शासन।

सेवा में

आयुक्त,

खाद्य एवं रसद विभाग

जवाहर भवन लखनऊ।

खाद्य तथा रसद अनुभाग-3

लखनऊ दिनांक 14 अगस्त 2017

विषय-जिला खाद्य विपणन अधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय भवन के किराये के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-ले0शा0/702/टीसी/कार्या0किरा0/आजमगढ़ दिनांक 26-7-2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत जिला खाद्य विपणन अधिकारी आजमगढ़ के कार्यालय हेतु श्रीमती ऊषा पाण्डेय पत्नी श्री कृष्ण मोहन पाण्डेय 73 नरौली पूर्व आजमगढ़ का भवन जिसका कारपेट एरिया 571.00 वर्ग फुट है। जिलाधिकारी आजमगढ़ द्वारा निर्गत किराया औचित्य प्रमाण पत्र तथा विभाग एवं भवन स्वामिनी के मध्य निष्पादित अनुबन्ध के आधार पर रू0 13.94 प्रति वर्ग फुट प्रति माह की दर से रू0 7960.00 (रू0 सात हजार नौ सौ साठ मात्र) मासिक किराया दिनांक 07-05-2014 से पांच वर्ष की अवधि के लिये भुगतान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3- उक्त दर से किराया भुगतान किये जाने से पूर्व यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्यालय भवन हेतु किराये के रूप में यदि कोई धनराशि पूर्व में भुगतान की गयी हो तो उपरोक्तानुसार समायोजन करते हुए अन्य अवशेष औपचारिकताएं भी अवश्य पूर्ण कर ली जाय।

4- उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-21 के लेखाशीर्षक 2408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार-आयोजनेत्तर-01-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

खाद्य- 001-निदेशन तथा प्रशासन-03-अधिष्ठान व्यय(अधिप्राप्ति तथा पूति)-17 किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश प्रशासकीय विभागों को वित्त विभाग द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)

उप सचिव।

सं0-18/2017/401(1)/29-3-2017-2 कार्यालय/2016तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार(लेखा)प्रथम 30प्र0 इलाहाबाद ।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम सी0ए0एस0एस0।।। टी0ए0डी0 कोआर्डिनेशन 30प्र0 इलाहाबाद ।
- 3- वित्त नियंत्रक खाद्य एवं रसद विभाग जवाहर भवन लखनऊ।
- 4- संभागीय खाद्य नियंत्रक आजमगढ़ संभाग आजमगढ़।
- 5- जिला खाद्य विपणन अधिकारी आजमगढ़।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी आजमगढ़।
- 7- श्रीमती रुषा पाण्डेय पत्नी श्री कृष्ण मोहन पाण्डेय 73 नरौली पूर्व आजमगढ़।
- 8- गार्ड बुक।

आज्ञा से

(धर्म चन्द्र पाण्डेय)

उप सचिव।